

## होटल, ढाबे, चाय व परचून की दुकानों पर नकली शराब बेचने वाले दो पकड़े, दोनों हैं सगे भाई Aligarh News

Publish Date: Sun, 08 Dec 2019 07:46 AM (IST)

**अलीगढ़ [जेएनएन]**। कासी पुलिस ने शुक्रवार शाम सूर्य विहार स्थित मकान पर छापेमारी कर शराब का जखीरा पकड़ा। दो शराब तस्करों को दबोच लिया। दोनों सगे भाई हैं। उनके साथी भाग गए। पुलिस को बनी व अधबनी शराब के साथ उपकरण भी मिले। बरामद शराब की कीमत हजारों रुपये आंकी गई है।

### मिल रहीं थी शिकायतें

सीओ सिविल लाइन अनिल समानिया ने बताया कि कासी क्षेत्र में नकली शराब की बिक्री जानकारी मिल रही थी। इंस्पेक्टर कासी विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मकान पर छापा मारा। बकौल सीओ, फैक्ट्री एक किराये के मकान में चल रही थी। पकड़े गए आरोपित रोहित शर्मा व योगेश शर्मा पुत्रगण जयप्रकाश शर्मा निवासी मौहल्ला वैश्य पाड़ा, अतरौली शामिल हैं। जबकि शेष साथी भाग जाने में सफल रहे। उन्होंने बताया कि मौके से मकान से पुलिस को 36 बोतल शराब, 265 पौवे कैमीकल, खाली पौवे, उन्हें सील करने की एक मशीन, खाली ढक्कन, लेबल रेपर, मिक्सिंग के खाली ड्रम, कैन, बाल्टी, कीप, पाइप, खाली गत्ते, खाली बोरे, पैकिंग मशीन, पैकिंग टेप, गैस चूल्हा आदि समेत तमाम उपकरण बरामद हुए हैं।

### ऐसे करते थे नकली शराब तैयार

आरोपित एल्कोहल में पानी मिलाकर शराब तैयार करते थे। फिर उसमें कैमीकल, एसेंस आदि मिलाकर डिमांड के हिसाब से शराब के नामी ब्रांडों की नकली शराब बनाते थे। फिर उन्हें ले स्कूटी से ले जाकर होटल, ढाबे, चाय, परचून आदि की दुकानों पर ले जाकर बेच दिया करते थे।

### पहले भी पकड़े गए

आरोपित 28 जुलाई को भी सुरेंद्रनगर रावणटीला में बिजलीकर्मों के घर में शराब की फैक्ट्री चलाते पकड़े गए थे। गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी।

**Source:** <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/aligarh-city-two-caught-selling-fake-liquor-at-hotel-dhabas-tea-and-groceries-both-are-real-brothers-19823562.html>